



# जनपद शामली पुलिस



**--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--**

**प्रेसविज्ञप्ति**

**दिनांक 27.05.2021**

## **थाना कोतवाली**

### **थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.05.2021 को ग्राम खेडी करमू से अभियुक्त अनवर पुत्र लतीफ उर्फ तोहफीक निवासी खेडी करमू थाना कोतवाली जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शामली के मु0अ0सं0 45/21 धारा 8/20/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में वांछित चल रहा था।

## **थाना गढीपुख्ता**

### **थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास मामले में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार:-**

आज दिनांक 27.05.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा ग्राम कैल शिकारपुर से हत्या के प्रयास मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 11.02.2021 को वादी श्री सौरभ कुमार सकसैना जेई 33/11 केवी सबस्टेशन ग्राम दुल्लाखेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली द्वारा ग्राम कैल शिकारपुर में बिजली चैकिंग के दौरान राजबहादुर आदि द्वारा वादी व चैकिंग टीम पर लाठी-डंडों से हमला करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एक हमलावर को थाना पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे।

### **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

- 1- अरुन पुत्र सतीश निवासी ग्राम कैल शिकारपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2- शिवकुमार पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम कैल शिकारपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3- मुकेश पत्नी कंवरपाल निवासी ग्राम कैल शिकारपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

### **आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-**

- 1-मु0अ0सं0 18/21 धारा 147,149,353,332,307,504,427 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2- हे0का0 नरेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3- हे0का0 चन्द्र सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 4- का0 मधुर कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 5- का0 हरेन्द्र थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 6- म0का0 रीता थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।



## थाना कैराना

**थाना कैराना पुलिस की शराब तस्करो से हुई मुठभेड में 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, 05 लीटर रेक्टिफाइड शराब, चोरी की मोटरसाईकिल एवं अवैध हथियार बरामद ।**

दिनांक 26.05.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर रजवाहा पटरी कैराना-कण्डेला मार्ग से चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल सवार शराब तस्करो से हुई मुठभेड में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा मय 05 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 12 बोर व 10 लीटर कच्ची शराब, 05 लीटर रेक्टिफाइड एवं चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुई हैं । गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ कर उनके अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है । बरामद मो0सा0 अभियुक्त साकिर द्वारा जनपद मु0नगर से चोरी करना बताया है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1. साकिब पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली ।
2. इंसार पुत्र समयदीन निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली ।
3. वकील पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली ।

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 1- 03 अवैध तमंचा मय 05 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
- 2- 10 लीटर अवैध कच्ची शराब ।
- 3- 05 लीटर रेक्टिफाइड शराब
- 4- एक चोरी की मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर (चैसिस नं-MBLHAR085HHE63004, इंजिन नं-HA10AGHHCG0400) ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री रमेश चन्द थाना कैराना जनपद शामली ।
2. है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।
3. का0 कपिल थाना कैराना जनपद शामली ।
4. का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।
5. का0 योगेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।



### **थाना कैराना पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद:-**

दिनांक 26.05.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आंशिक कर्पूरु के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर पानीपत रोड़ कैराना से 01 वाहन चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद मोटरसाइकिल अभियुक्त द्वारा सहारनपुर से चोरी करना बताया है।

### **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. मुरसलीन उर्फ भूरा पुत्र जरीफ उर्फ जीफा निवासी मो0 दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर बिना नम्बर (चैसिस नं-MBHLF10ASDHAK239 इंजन नं-HA10ELDHA27051)।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।

2. का0 संदीप थाना कैराना जनपद शामली।

4. का0 पवन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



### **थाना कैराना पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के प्रयास में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-**

थाना कैराना पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.05.2021 को अभियुक्त सद्दाम पुत्र रूकमदीन निवासी भूरा थाना कैराना जनपद शामली को मोटरसाइकिल चोरी करने के प्रयास में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके सम्बन्ध थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### **थाना कैराना पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

आज दिनांक 27.05.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्त आशिक पुत्र माजिद निवासी ग्राम गढ़ीदौलत थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैराना के मु0अ0सं0 276/21 धारा 452, 354 भादवि में वांछित चल रहा था।

### **थाना कैराना पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

आज दिनांक 27.05.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्त फुरकान पुत्र जोर हसन निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैराना के मु0अ0सं0 219/21 धारा 323, 354बी भादवि में वांछित चल रहा था।